



# एकादशी की आरती

ॐ जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता ।  
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता ॥ ॐ ॥

तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी ।  
गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी ॥ ॐ ॥

मार्गशीर्ष के कृष्णपक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारनी जन्मी ।  
शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई ॥ ॐ ॥

पौष के कृष्णपक्ष की, सफला नामक है,  
शुक्लपक्ष में होय पुत्रदा, आनन्द अधिक रहै ॥ ॐ ॥

नाम षटतिला माघ मास में, कृष्णपक्ष आवै ।  
शुक्लपक्ष में जया, कहावै, विजय सदा पावै ॥ ॐ ॥

विजया फागुन कृष्णपक्ष में शुक्ला आमलकी,  
पापमोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबलि की ॥ ॐ ॥

चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली,  
नाम बरुथिनी कृष्णपक्ष में, वैसाख माह वाली ॥ ॐ ॥

शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्णपक्षी,  
नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्लपक्ष रखी ॥ ॐ ॥





योगिनी नाम आषाढ में जानों, कृष्णपक्ष करनी।  
देवशयनी नाम कहायो, शुक्लपक्ष धरनी ॥ ॐ ॥

कामिका श्रावण मास में आवै, कृष्णपक्ष कहिए।  
श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनन्द से रहिए ॥ ॐ ॥

अजा भाद्रपद कृष्णपक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला।  
इन्द्रा आश्विन कृष्णपक्ष में, व्रत से भवसागर निकला ॥ ॐ ॥

पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी।  
रमा मास कार्तिक में आवै, सुखदायक भारी ॥ ॐ ॥

देवोत्थानी शुक्लपक्ष की, दुखनाशक मैया।  
पावन मास में करूं विनती पार करो नैया ॥ ॐ ॥

परमा कृष्णपक्ष में होती, जन मंगल करनी ॥  
शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी ॥ ॐ ॥

जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावै।  
जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावै ॥ ॐ ॥

